




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 84]
No 84]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1979/चैत्र 7, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1979/ CHAITRA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1979

सा० का० वि० 271(अ).—राष्ट्रपति, मंत्रिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग में निवेशक (अन्वेषण एवं सांख्यिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी कार्य विभाग (निवेशक, अन्वेषण और सांख्यिकी) भर्ती नियम 1979 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की शक्ति, अ-यु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की शक्ति न ह, प्रस्ताव और उचित परामर्श अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति:—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेब बद्ध करके तथा संय लोच सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | न्यूनतम पद अथवा अधीन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निवेशक (अन्वेषण और सांख्यिकी) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित | 2000-125/2.- 2250 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु, और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वषा में लागू नहीं होती या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)। भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के अधीन सवृष पद धारण करने वाले अधिकारी, जिनके न होने पर राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन सवृष पद धारण करने वाले और व्यापार उद्योग वाणिज्य आदि से सम्बन्धित समस्याएं निपटाने तथा निगमित वित्त का अनुभव रखने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता | राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त करते समय और इन नियमों को शिथिल या संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। | |

[फ० सं० ए-12018/2/79-प्रश्ना०-1]

एस० सी० मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY

AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1979

G.S.R. 271(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Research and Statistics) in the Department of Company Affairs, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Company Affairs (Director, Research and Statistics) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage

and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Director (Research and Statistics) | 1 | General Central Service Group 'A' Gazetted | Rs. 2000-125/2-2250 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation (including short-term contract) | Transfer on deputation (including short-term contract) ; Grade I officers of the Indian Economic Service, Indian Statistical Service or officers under the Central Government holding analogous posts, falling which officers holding analogous posts under the State Governments, Universities, recognised research institutions or public sector undertakings and possessing experience of dealing with problems relating to trade, industry, commerce, etc. and having knowledge of corporate finance. (Period of deputation or contract shall ordinarily not exceed 4 years) | Not applicable | Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer from a State Government, University, recognised research institution, public sector undertaking on deputation or contract and exercising power to relax or to amend these rules. |

[F. No. A 12018/2/79 Admn I]
S. C. MITAL, Joint Secretary

